CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

(CIN: L70109DL1980PLC169318)

Regd Office: Ist Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

Möbile No.: 7303495374 Email:camaccommercial@gmail.com Website: www.camaccommercial.com

To,

June 18, 2025

The Secretary

The Calcutta Stock Exchange Limited

7, Lyons Range, Kolkata, West Bengal- 700001

<u>Sub: Intimation regarding Publication of Notice informing Conduct of Annual General Meeting through VC</u>

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that the Company, in terms of the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India, has given a Public Notice by way of an advertisement specifying that the Annual General Meeting will be held through VC facility and the manner in which persons who have not registered their email addresses with the Company can get the same registered with the Company and also specifying other requirements given in the circular and Annual General Meeting of the Company for the financial year 2024-25 shall be held on Monday, July 14, 2025.

Further, the Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, July 08, 2025 to Monday, July 14, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Company had duly published the aforesaid advertisement in two newspapers viz. "Financial Express" (all edition) in English and in "Pioneer" (Delhi edition) in Hindi on June 18, 2025.

Thanking you,

Yours faithfully,

. 1 2.

Manisha Saxella

Company Secretary & Compliance Officer

For Camac Commercial Company LA

Membership No.: A71075

FINANCIAL EXPRESS

SMT ENGINEERING LIMITED (Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)

CIN: L33120WB1992PLC055082 Regd. Office: 8a & 8b, Satyam Towers 3, Alipore Road, Kolkata-700027 (West Bengal) India Corporate Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area,

Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 Madhya Pradesh, India Email Id: compliance@saimachinetools.com | Website: www.adarshmercantile.in | Contact Details: +91 9109197950 EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

S.No	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited
1	Total Income From Operations	632.62	52.39	757.48	317.30	1,985.16	52.39	2,110.02	317.30
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	0.91	-426.05	18.76	-185.57	290.17	-426.05	308,02	-185,57
3	Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.91	-426.05	18.76	-185.57	294,79	-426.05	312,64	-185.57
4	Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.90	-414.17	18.08	-173.69	259.74	-414.17	276.92	-173.69
5	Total Comprehensive Income for the period [Compeising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.92	-373.23	18.10	1,96	259.76	-417.85	338,03	50,67
6	Paid-up Equity Share Capital	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50	1,652.00	367.50
7	Reserve (exculding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	3,705,78	-373.23	4,010.59	287.64	4,326.00	-432.47	4,630.81	389.73
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For Continuing and Discontinued Operations) i) Basic ii) Diluted	0.02 0.02	-11.27 -11.27	0.47 0.47	-4.73 -4.73	6.68 6.68	-12.65 -12.65		-4.57 -4.57

Note: The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Audited Financial Results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of Quarterly/Annual Audited Financial Results is available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.adarshmercantile.in) and the same can be accessed by scanning the QR Code attached below. By order of the Board.

Place: Indore Dated: 16.06.2025



Ajay Jaiswal Managing Director DIN: 01754887

For SMT ENGINEERING LIMITED



THE LATEST **TRENDS** IN BUSINESS THE LATEST

(G) As on date, there is no revision in open offer price or open offer size. In case of any revision in the open offer price or open

(H) In terms of Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, the Offer Price or the Offer Size may be revised.

would be paid to all the Public Shareholders whose Equity Shares are accepted under the Open Offer.

SEBI, the Stock Exchanges and the Target Company at its registered office of such revision.

negotiated acquisition of Equity Shares in any form.

FINANCIAL ARRANGEMENTS

(One Percent) of the total Offer Size.

of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

prior to effecting such revision.

offer size, the Acquirer shall (i) make corresponding increases to the escrow amounts; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement,

inform SEBI, Stock Exchange and the Target Company at its registered office of such revision. The revised Offer Price

on account of competing offers or otherwise, at any time prior to the commencement of the last one Working Day before

the commencement of the Tendering Period. In the event of such revision; (a) the Acquirer shall make corresponding

increase to the Escrow Amount (as defined below); (b) make a public announcement in the same newspapers in which this

Detailed Public Statement has been published; and (c) simultaneously with the issue of such public announcement, inform

If the Acquirer and/or PACs acquire Equity Shares during the period of twenty-six weeks after the closure of tendering

period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer and/or PACs shall pay the difference between the highest

acquisition price and the Offer Price, to all the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in this Open

Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such

acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity

Shares) Regulations, 2021 or open market purchases made in the ordinary course on the Stock Exchanges, not being

(A) The Total consideration for the Open Offer, assuming full acceptance under the offer, i.e. for the acquisition of 16,27,698*

Crore Ninety Seven Lakh Twelve Thousand Two Hundred and Seventy Two only) (the "Offer Consideration").

6.44% (Six Point Four Four Percent) of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company.

resources to make the fund requirement for fulfilling all the obligations under the Offer.

Nagar, Kalavad Road, Rajkot, India, Tel. no. 7069877599, email ID: p.nensonaiya@gmail.com

for the payments through verifiable means are in place to fulfill the obligations under the Open Offer

(Sixteen Lakh Twenty Seven Thousand Six Hundred and Ninety Eight) Equity Shares, at the Offer Price of Rs. 264/-

(Rupees Two Hundred and Sixty Four only) (the "Offer Consideration") is Rs. 42,97.12,272/- (Indian Rupees Forty Two

* As per Regulation 7 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Offer Size, for the Open Offer under Regulations 3(1) and

4 of the SEBI (SAST) Regulations, should be for at least 26% (Twenty Six Percent) of the Emerging Voting Share Capital

of the Target Company. However, the Offer Size is restricted to 16,27,698 (Sixteen Lakh Twenty Seven Thousand Six

Hundred and Ninety Eight) Equity Shares, being the Equity Shares held by the Eligible Public Shareholders, representing

of the Equity Shares under the Offer, in terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations. The acquisition will be

financed through internal resources and no funds are borrowed from banks or financial institution for the purpose of this Open Offer. The Acquirer hereby declares and confirms that it has adequate and firm financial resources to fulfil the total

financial obligation under the Open Offer. CA Vivek Bhatt (Membership No. 193504), Proprietor of M/s Patel Jain &

Associates, Chartered Accountants (Firm Registration Number: 129797W) has certified that the Acquirer has sufficient

Savaliya (PAC 3) as on March 31, 2025 is Rs. 808.12 Crores (Rupees Eight Hundred and Eight Point One Two Crores Only), Rs. 38.26 Crores (Rupees Thirty Eight Point Two Six Crores Only) and Rs. 27.47 Lakhs (Rupees Twenty Seven

Point Four Seven Lakhs Only) respectively as certified by CA Pranav U. Nensonalya (Membership No. 126071) proprietor

of P. U. Nensonaiya & Co. Chartered Accountants bearing FRN 128343W, having its office at Shri ram Krupa Kotecha

and PACs to implement the Open Offer in accordance with SEBI (SAST) Regulations, and (ii) that firm financial arrangements

under the name and style of 'M/S Onix Solar Energy Limited Open Offer Escrow Account' bearing Account No: 000405163601

with ICICI Bank Limited a banking company duly incorporated under the Companies Act, 1956 and registered as a banking

company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at ICICI Bank Tower,

Near Chakli Circle, Old Padra Road , Vadodara - 390007, India and acting through its branch situated at ICICI Bank Ltd,

Capital Market Division 163, 5th Floor, HT Parekh Marg, Churchgate, Mumbai- 400020, and Escrow Account comprises of

a bank guarantee made by Bank of Baroda for a guaranteed sum not exceeding Rs. 12,00,00,000,000.00/- (Rupees Twelve

Crore Only) which shall be valid for one year from the date of Public Announcement, i.e., June 11, 2025, being equal to or

higher than the minimum escrow amount as specified in Regulation 17(4) of the Securities and Exchange Board of India

(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, being more than 25% out of the maximum consideration

payable under the Offer along with Cash Deposit of Rs. 45,00,000.00/- (Rupees Forty Five Lakhs Only) exceeding 1.00%

(F) The Manager to the Open Offer has been duly authorized by the Acquirer to realize the value of Escrow Account in terms

(G) In case of any upward revision in the Offer Price or the size of the Open Offer, the Acquirer would deposit appropriate

(A) As on the date of this DPS, to the knowledge of Acquirer and PACs, except for approval of BSE in accordance with

additional amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations,

Regulation 28 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 in respect of proposed preferential issue, there are no statutory or other

approvals required to complete the underlying transaction and the Open Offer. However, if any statutory or other approvals

are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such

Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer. In the event of withdrawal, a public announcement

will be made within 2 (Two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been

Shares, if any, must obtain all requisite approvals/exemptions required (including without limitation, the approval from the

Reserve Bank of India ("RBI"), if any, to tender the Equity Shares held by them in this Open Offer and submit such

approvals/ exemptions along with the documents required to accept this Open Offer. Further, if the Public Shareholders

who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, foreign institutional investors ("FIIs") and foreign portfolio

investors ("FPIs") had required any approvals (including from the RBI or any other regulatory authority/ body) at the time

of the original investment in respect of the Equity Shares held by them currently, they will be required to submit copies of

such previous approvals that they would have obtained for acquiring/holding the Equity Shares, along with the other

documents required to be tendered to accept this Open Offer. If the aforementioned documents are not submitted, the

Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Open Offer. This Open Offer is subject to receipt of

of approval from the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the regulations made thereunder, Such OCBs

payment of consideration within 10 (ten) Working Days from the closure of the tendering period to those Public Shareholders

whose documents are found valid and in order and are approved for acquisition by the Acquirer in accordance with

Regulation 21(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Where statutory or other approval(s) extends to some but not all of the

Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom

date, as per Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, SEBI may, if satisfied, that non-receipt of approvals was not

attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer and/or the PACs to diligently pursue such approvals, grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer subject to the Acquirer and PACs

agreeing to pay interest to the Public Shareholders for the delay. Provided where the statutory approvals extend to some but

not all holders of the Equity Shares, the Acquirer and the PACs have the option to make payment to such holders of the Equity

Shares in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Open Offer. Further, if delay occurs

on account of willful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations,

2011 will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.

(F) In case of delay in receipt of any statutory approvals as disclosed above or which may be required by the Acquirer at a later

(D) Public Shareholders classified as OCBs, if any, may tender the Equity Shares held by them in the Open Offer pursuant to receipt

(E) Subject to the receipt of the statutory approval, if applicable, and other approvals set out herein, the Acquirer shall complete

the requisite RBI approvals, if any, for acquisition of Equity Shares by the Acquirer from NRIs and OCBs

no statutory or other approval(s) are required in order to complete this Open Offer

shall approach the RBI independently to seek approval to tender the Equity Shares held by them in the Open Offer.

published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE and the registered office of the Target Company.

(C) Non-resident Indians ("NRIs"), erstwhile overseas corporate bodies ("OCBs") and other non-resident holders of the Equity

statutory or other approvals and the Acquirer and/or PACs shall make the necessary applications for such approvals.

(B) The Acquirer and PACs will not proceed with the Open Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of

(D) Based on the above, Grow House Wealth Management Private Limited, Manager to the open offer, is satisfied about the following: (i) the adequacy of resources to meet the financial requirements of the Open Offer and the ability of the Acquirer

(E) In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Acquirer has opened an escrow account

(C) The Networth of Divyesh Mansukhbhai Savaliya (PAC 1), Piyush Mansukhbhai Savaliya (PAC 2) and Khilan Hareshbhai

(B) The Acquirer and PACs have adequate resources and have made firm financial arrangements for financing the acquisition

TRENDS IN TRENDS

♦ FINANCIAL EXPRESS

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

(CIN: L70109DL1980PLC169318) Regd Office: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

Mobile No.: 7303495374, Email: camaccommercial@gmail.com Website: www.camaccommercial.com

NOTICE OF THE 45" ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that:

The 45" Annual General Meeting ("AGM") of the Camac Commercial Company Limited ("Company") will be convened on Monday, July 14, 2025 at 10:30 AM IST through Video Conferencing ("VC") facility to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and rules framed thereunder read with General Circular No. 9/2024; dated: September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133; dated: October 03, 2024, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular").

In terms of MCA Circular and SEBI Circular the requirements of sending physical copy of the notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed therefore the Company is sending notice of its 45° AGM and Annual Reports 2024-25 to the members at their registered email id address, the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.camaccommercial.com and on the website of CDSL: www.evotingindia.com and those Members holding shares in physical or demat form, whose email addresses are not registered with the Company, are required to register their email addresses with Niche Technologies Private Limited. (Registrar and Transfer Agent) by sending a request letter specifying Name, Folio Number, Number of Shares, Certificate Number etc. & account details at email ID nichetechpl@nichetechpl.com on or before July 07, 2025.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of July 07, 2025 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses, as set out in the Notice of the 45th AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). All the members are informed that:

The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 45" AGM, will be transacted through voting by electronic means;

Date and time of commencement of remote e-voting: July 10, 2025 (9:00 A.M.); Date and time of end of remote e-voting: July 13, 2025 (5.00 P.M.);

The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the 45" AGM is July 07, 2025;

The detailed instructions on remote e-voting and joining AGM are given in the

(vi) Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 45" AGM by email and holding shares as on the cut-off date is July 07, 2025,

may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com or camaccommercial@gmail.com. (vii) Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during AGM; c) the members participating in

the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM. (viii) Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self-attested scanned copy of the PAN card; and self-attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members registered with

the Company, be email to camaccommercial@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. In case of any queries regarding remote e-voting from the e-Voting system, you may refer the frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsl india.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Designation: Senior Manager, Central

Depository Services (India) Limited, Address: Marathon Futurex, A-Wing, 25th floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800-21-09911, The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from July 08, 2025 to July 14, 2025 (both days inclusive).

For Camac Commercial Company Limited

Date: June 18, 2025 Place: New Delhi

Manisha Saxena Company Secretary

(G) In Accordance with the provisions of Regulation 18(11A) of the SEBI (SAST) Regulations, if there any delay in making payment to the public shareholders who have accepted this offer, the Acquirer will be liable to pay interest at the rate of 10.00% per annum for the period of delay. This obligation to pay interest is without prejudice to any action that the SEBI may take under Regulation 32 of the SEBI (SAST) Regulations, However, it is important to note that if the delay in payment is not attributable to any act of omission or commission by the Acquirer and/or the PACs, or if it arises due to reasons or circumstances beyond the control of the Acquirer, SEBI may grant a waiver from the obligation to pay interest. Public Shareholders should be aware that while such waivers are possible, there is no certainty that they will be granted, and as such, there is a potential risk of delayed payment along with the associated interest.

(H) In terms of Regulation 23 (1) (c) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, in the event that, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, the approvals specified in this DPS as set out in this part or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received or refused, then the Acquirer and/or the PACs shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer, through the Manager to the Open Offer, shall, within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. II

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER

Major Activities	Schedule (1)
Date of Public Announcement	Wednesday, June 11, 2025
Date of Publication of Detailed Public Statement in the newspapers	Wednesday, June 18, 2025
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Wednesday, June 25, 2025
Last Date for a public announcement for competing offer(s)	Wednesday, July 09, 2025
Last date for receipt of comments from SEBI on Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Open Offer)	Wednesday, July 16, 2025
identified Date(2)	Friday, July 18, 2025
Date by which Letter of Offer will be dispatched to the Public Shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	Friday, July 25, 2025
Last date by which the Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company is required to publish its recommendation to the Public Shareholders for this Open Offer	Tuesday, July 29, 2025
Last date for upward revision of the Offer Price and/or Offer Size	Thursday, July 31, 2025
issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers	Thursday, July 31, 2025
Date of commencement of tendering period ("Offer Opening Date")	Friday, August 01, 2025
Date of Closing of tendering period ("Offer Closing Date")	Thursday, August 14, 2025
Date of communicating the rejection / acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	Monday, September 01, 2025
Post Offer Advertisement	Tuesday, September 09, 2025

subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer, PACs, existing Promoter(s) of the Target Company, Selling Company, public shareholders who have been issued equity shares in preferential issue and any person deemed to be acting in concert with them, pursuant to and in compliance with the provisions of regulation 7(6) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011) are eligible to participate in the offer anytime before the closure of the Tendering Period.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES

(A) The Open Offer will be implemented by the Acquirer and the PACs through stock exchange mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended vide SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 as amended from time to time, and as per further amendment vide SEBI Circular bearing number SEBI/HO/ CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and SEBI's Master Circular dated February 16, 2023, bearing number SEBI/HO/CFD/PoD1/P/CIR/2023/31 ("Master Circular"). As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offer. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism will be available in the Letter of offer which shall also be made available on the website of SEBI - www.sebi.gov.in.

(B) All the Public Shareholders holding Equity Shares, in dematerialized or physical form, are eligible to participate in this Open. Offer at any time during the period from Offer Opening Date and Offer Closing Date ("Tendering Period") for this Open Offer. In accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, Public shareholder holding securities in physical form are followed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per provision of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Accordingly, Public shareholding holding Equity share in physical formats will be eligible to tender their Equity Share in this open offer as per the provision of the SEBI

(C) Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e., the date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer. Accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.

(D) The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure that the Equity Shares are fully paid up and are free from all liens, charges and encumbrances. The Acquirer shall acquire the Equity Shares that are validly tendered and accepted in this Offer, together with all rights attached thereto, including the rights to dividends, bonuses and rights offers declared thereof in accordance with the applicable law and the terms set out in the PA, this DPS and the Letter of Offer.

(E) The Public Shareholders may also download the Letter of Offer from SEBI's website or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares and their folio number. DP identity-client identity, current address and contact details.

(F) In the event that the number of Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders under this Open Offer is more. than the number of Equity Shares agreed to be acquired in this Offer, the Acquirer shall accept those Equity Shares validly tendered by such Public Shareholders on a proportionate basis in consultation with the Manager to the Open Offer. The marketable lot of Target Company for physical mode and for dematerialized mode is 1 (One).

(G) BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.

(H) The Acquirer have appointed Motifal Oswal Financial Services Ltd. ("Buying Broker") for the Open Offer through whom the purchases and the settlement of the Equity Shares tendered in the Open Offer during the tendering period shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: Motilal Oswal Financial Services Ltd. Address: "Motifal Oswal Financial Services Ltd" 10th Floor, RK Empire, office 1024-1029, Near Maydi Cross Road, 150 Feet Ring Road. Rajkot-360004 (Gujarat) India

Contact Person: Mr. Sagar Vithlani Website: www.motilaloswal.com Tel.: 9377770002

E-mail ID: sagar.vithlani@motilaloswal.com

Investor Grievance Email ID: grievances@motifaloswal.com SEBI Reg. No.: INZ000158836 epaper.financialexpress.com GUJARAT LEASE FINANCING LTD.

Regd. Office: 6th Floor, Hasubhai Chambers, Opp. Town Hall, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006 (Gujarat), India

(CIN: L65990GJ1983PLC006345)

Phone: +91 79 2657 5722 / 2657 5180, Fax: +91 79 2657 5180 Website: www.gujaratleasefinancing.co.in, Email: glflho ahm@vahoo.co.in

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

NOTICE is hereby given that 42nd AGM of the Members of the Company will be held on Friday, July 11, 2025 at 12:30 pm IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars No 09/2024 dated September 19, 2924 (collectively referred as "the MCA Circulars").

In accordance with the MCA Circulars and SEBI circular dated October 03, 2024, Notice of the AGM alongwith Annual Report for Financial Year 2024-25, inter-alia, including the remote e-voting instructions, has been e-mailed to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / with the Depository Participants ("DP") on June 17, 2025. The same are also available on the websites of the Company: www.gujaratleasefinancing.co.in, the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Further, as per Regulation 36(1)(b) of Listing Regulation as amended, the web-link, including exact path, where complete details of Annual Report are available is being sent to those members who have not registered their e-mail IDs.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration)

Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and MCA Circulars, the Company is providing the e-voting facility through CDSL to the Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, July 04, 2025 to exercise their right to vote by using remote e-voting and e-voting during AGM on any or all of the businesses specified in the Notice of AGM. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting during the AGM are forming part of the Notice of AGM.

The remote e-voting period begins on Monday, July 07, 2025 at 9:00 am and shall end on Thursday, July 10, 2025 at 5:00 pm. Remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not casted their votes on the businesses through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any persons who have acquired shares and become Member of the Company after sending of Notice of AGM electronically and holding shares as on the cut-off date may cast their votes by following the instructions of remote e-voting and e-voting during the AGM as mentioned in the Note No. 22 and 23 of the Notice of AGM.

In case the Members' have not registered their Email address and/or bank account details with the Company / DP may follow the process detailed below for registration:

Dematerialized Holding	For any kind of updation, the Member may contact their DPs.
Physical Holding	Register/Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents (RTA) of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited. The Forms are available on website of the Company / RTA.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

Login through	Helpdesk details			
CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33.			
NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000.			

In case of any gueries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write as email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

By order of the Board

For Gujarat Lease Financing Limited

Place: Ahmedabad Date : June 18, 2025

Meera Gudka Company Secretary

Selling broker can enter order for dematerialized as well as physical Equity Shares. (J) The Acquisition Window will be provided by BSE to facilitate the placing of orders. The Selling Broker would be required to place an order / bid on behalf of the Public Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Open Offer using the Acquisition Window of BSE. Before placing the order / bid, the Selling Broker will be required to mark lien on the tendered Equity Shares. Details of such Equity Shares marked as lien in the demat account of the Public Shareholders shall be provided by the depository to the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation").

stock broker ("Selling Broker") during the normal trading hours of the secondary market during the tendering period. The

(I) Public Shareholders who desire to tender their Equity shares under the open Offer would have to intimate their respective

(K) In the event the Selling Broker of a Public Shareholder is not registered with the BSE, then the Public Shareholders can approach any BSE registered stock broker and can register themselves by using quick unique client code ("UCC") facility through BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Public Shareholders are unable to register using UCC facility through any other BSE registered broker, Public Shareholders may approach Buying Broker i.e., Motilal Oswal Financial Services Ltd for guidance to place their Bids. The requirement of documents and procedures may vary from broker to broker. (L) As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and SEBI's press release dated December

03, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Shareholders who wish to offer their physical Equity Shares in the Offer are requested to send their original documents as will be mentioned in the Letter of Offer to the Registrar to the Offer so as to reach them not later than the Offer Closing Date. It is advisable to first email scanned copies of the original documents as will be mentioned in the Letter of Offer to the Registrar to the Offer and then send physical copies to the address of the Registrar to the Offer as will be provided in the Letter of Offer. The process for tendering the Offer Shares by the Public Shareholders holding physical Equity Shares will be separately enumerated in the Letter of Offer.

(M) The cumulative quantity tendered shall be made available on BSE's website i.e., www.bseindia.com, throughout the trading session at specific intervals by BSE during the Tendering Period.

(N) Upon finalization of the entitlement, only accepted quantity of Equity Shares will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder

(O) The Equity Shareholders will have to ensure that they keep a Demat Account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Open Offer.

(P) Equity Shares once tendered in the Offer cannot be withdrawn by the Shareholders.

(Q) Equity Shares should not be submitted/ tendered to the Manager to the Open Offer, the Acquirer or the Target Company IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN THE OPEN OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE

LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED TO THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS ON THE IDENTIFIED DATE AND WHICH SHALL ALSO BE MADE AVAILABLE ON THE WEBSITE OF SEBI - WWW.SEBI.GOV.IN

X. OTHER INFORMATION

(A) The Acquirer and the PACs accept full responsibility for the information contained in the Public Announcement and this Detailed Public Statement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company and/or the Sellers), and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer,

(B) The information pertaining to the Target Company contained in the Public Announcement or this Detailed Public Statement or the Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or provided by the Target Company, or publicly available sources which has not been independently verified by the Acquirer and PACs or the Manager. The Acquirer, the PACs and the Manager to the Open Offer do not

accept any responsibility with respect to such information relating to the Target Company. (C) Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has appointed Grow House Wealth Management Private Limited, Ahmedabad as Manager to the Open Offer and the Manager to the Offer issues this Detailed Public

Statement on behalf of the Acquirer and the PACs. (D) The Acquirer have appointed Skyline Financial Services Private Limited as the Registrar to the Open Offer, details are as below:

Name: Skyline Financial Services Private Limited

Address: D-153A, 1st floor, Phase I, Okhla Industrial Area, Delhi -110020 Tel: +91-11-26812683. 011- 40450193-97

Email: ipo@skylinerta.com Investor Grievance Email: grievances@skylinerta.com

Website: www.skylinerta.com Contact Person: Mr. Anul Rana

SEBI Registration No.: INR000003241

(E) In this DPS, all references to "₹" or "Rs." or "Rupees" or "INR" are references to the Indian Rupee(s). (F) In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed are due to rounding off and/or

(G) This Detailed Public Statement would also be available at SEBI's website i.e. www.sebi.gov.in THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ISSUED BY MANAGER TO THE OPEN OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PACS



(CIN: U67100GJ2022PTC133630)

A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054,

Website: www.growhousewealth.com Contact Person: Mr. Hill Shah

Validity: Permanent

Nikhil Savaliya Divyesh Savaliya Director PAC 1 Onix Renewable Limited (Formerly Known as Onix Structure Private Limited)

Khilan Savaliya Piyush Savaliya PAC 2 PAC 3

Date: June 18, 2025

Grow House Wealth Management Private Limited

Gujarat, India Tel: +91 79353 33132 / +91-79-35333682 E-mail: takeover@growhousewealth.com SEBI Reg. No: INM000013262

For and on behalf of the Acquirer and the PACs:

Place: Raikot **New Delhi**

PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS

Client No.of Bal. Outstanding as on 16/06/2025

ASHOK VIHAR - DELHI

JANAKAPUR

WARAKA

LIMARBAGH

TILAK NAGAR, NEW DELH

DILSHAD GARDEN

KRISHNA NAGAR, NEW DELH

Alka Rani

Avinash Singh Manju Jain Naresh Kumar Rahul

10 Inderjeet Singh Kha

Irfan Khan Jenuddin Pappu Yadav Rahul

32 Daksha Devi Dev 33 Pragya Sethi

41 Abhishek Shukla 42 Nisha 43 Saurabh 44 Shama Parveen

बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, आंधी ने बढ़ाई मुसीबत

शहर की सड़कों पर भरा पानी, तेज हवा के कारण पेड़ टूटने से यातायात हुआ बाधित





गुरुग्राम के मदनपुरी में भरा बरसाती पानी व पानी निकासी के लिए काम करते निगमकर्मी। आंधी से टूटे पेड़ हटाते निगमकर्मी।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

बरसात से कई स्थानों पर पानी भर गया। बरसात से पहले आई तेज आंधी में कई स्थानों पर पेड़ भी टूट गए। नगर निगम की टीमों ने पानी की निकासी व टटे पेडों को उठाने के लिए सिक्रयता दिखाई। बरसात से पहले तेज आंधी

आई। आंधी में धुल-मिट्टी उडने के साथ ही पेडों को भी काफी नुकसान हुआ। शहर में अनेक स्थानों पर पेड ट्ट गए। कई स्थानों पर आवागमन गया। शीतला माता रोड, बहरामपुर रोड, सेक्टर-52, आरडी सिटी, इंदिरा कॉलोनी, सेक्टर-10, मदनपरी रोड सहित अन्य क्षेत्रों में जलभराव हुआ। निगम की टीमों ने मौके पर मौजूद रहकर पंप व अन्य संसाधनों के माध्यम से जलनिकासी को सुचारू

शहर के कटारिया मार्केट, विपुल वर्ल्ड, सुशांत लोक-1, आरडी सिटी

गेट-3, सेंट जेवियर स्कूल के पास, इलाकों में ड्रेनों की सफाई और पंपिंग जलनिकासी बेहतर तरीके से हो सकी। नगर निगम की ओर से यह

मंगलवार को शहर में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए निगमायुक्त प्रदीप दहिया के निर्देशों के बाद निगम की टीमों द्वारा शहरभर में जलनिकासी कार्य को तेजी से शुरू किया गया। व्यवस्था को

सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाई। बरसात शुरू होते ही निगमायुक्त ने अधिकारियों को पर्याप्त मैनपावर, पंप व अन्य मशीनरी के साथ फील्ड में डटे रहने के आदेश दिए। उन्होंने स्वयं व्यवस्था की निगरानी की और जलभराव प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करवाए। निगमायुक्त ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बरसात के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जलनिकासी की व्यवस्था को पूरी

किसानों में कहीं खुशी कहीं गम

🗕 मूंग की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका

🛡 ज्वार, कपास व दूसरी फसलों के लिए बारिश संजीवनी साबित हुई बारिश

<mark>पायनियर समा<u>चार सेवा।</mark> फरीदाबाद</u></mark>

मंगलवार शाम पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। इससे गर्मी से भारी राहत नौकरीपेशा वालों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पडा। इससे फरीदाबाद की सडकों पर जाम का नजारा बन गया। बघौला में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चलते लंबा जाम लगा रहा।

पिछले कई दिनों में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल थे। मंगलवार शाम झमाझम बारिश शुरू होते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने बारिश का खब लुत्फ उठाया।

कूद करते हुए नहाते हुए नजर आए बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। यह बारिश ज्वार. कपास, गन्ना व अन्य दुसरी फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी हालांकि मूंग किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। पलवल के गांव बघौला के किसान घनश्याम, छतरपाल, लोकेश, रूपचंद, कालू राम, ओमप्रकाश समेत जिले के किसानों का कहना है कि यह बारिश किसानों के लिए संजीवनी साबित होगी। इससे ज्वार, गन्ना, कपास समेत अन्य फसलों को काफी फायदा होगा। हालांकि मूंग किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। इस समय ऐसी बारिश की सभी को बेसब्री से जरूरत थी। गेंहू की कटाई के बाद गर्मी और पानी की कमी से जमीन सूखी थी। किसानों के मुताबिक इस बारिश से न केवल फसलें अच्छी होंगी, बल्कि कीट भी मर जाएंगे। इसलिए किसान इसे अमृत बरसा मानते हैं।

झमाझम बारिश से बिजली मांग पर भी पडा असर: बारिश होने के साथ ही बिजली की मांग पर भी असर दिखन शुरू हो गया। बारिश से पहले शहर के कई बिजली घर ओवरलोड थे, लेकिन बारिश के बाद बिजली की मांग काफी कम हो

वक्किल श्री ओम प्रकाश पुत्र गणेश साब निवासी

आ) ५५ जानाबहर प्रजा ५ उत्तर्भ ने परिस्ता गो००५९ एतद्दवारा घोषणा करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे दीपक और अपनी बहु दुर्गावती को अपनी सभी अचल और यल संपत्तियों से बेदखल कर दिया है और

अवल आरे यल संपतिया स बदेखल कर दिया है आरे अपने बेटे और उसकी पत्नी से अपने सभी संबंध भी तोड़ लिए हैं। उनके या उनकी पत्नी के साथ व्यवहार

करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोरिवम परिणाम

राजीव कुमार, अधिवक्ता Enrl No. D/186/2012 डब्ल्यूजेड—139सी, न्यू महावीर नगर, नई दिल्ली—18

PUBLIC NOTICE
iven to the General Public on hebalf of our clin

दादरी, फतेहाबाद और पंचकूला में बनेगी नई जेलः अरविंद शर्मा

मुख्यमंत्री ने मंजूर किए २८४ करोड रूपये

🛡 हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन जल्द जारी करेगी टेंडर

3956 बंदियों को रखने की बढ़ेगी क्षमता

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ

सहकारिता, जेल, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में चरखी दादरी के भैरवी. फतेहाबाद के बीघड व पंचकला के जलोली गांव में नई जिला जेल परिसर निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। मख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इन तीनों जेलों के इसके संबंध में टेंडर जारी करेगी। लिए 284 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है।

जेल विभाग द्वारा जल्द ही हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के माध्यम से इनके टेंडर जारी किए जाएंगे। बेहतरीन सुरक्षा प्रबंधों वाली इन तीन जेलों में 3956 बंदियों को रखने की व्यवस्था होगी।

मंगलवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी में देते हुए डॉ.अरविंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में तीन नई जिला जेल बनाने के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी जेल कैंपस निर्माण के लिए 97 करोड 73 रुपए, फतेहाबाद जेल कैंपस निर्माण के लिए 99 करोड 97 लाख रुपए व पंचकूला जिला जेल निर्माण के लिए 86 करोड़ 17 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजुरी प्रदान की गई है। इसके लिए जल्द ही हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन

जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में तीन केंद्रीय जेलों व 17 जिला जेलों में 22 हजार 647 बंदियों को रखने की क्षमता है। रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाडी के फिदेडी गांव में 50 एकड जमीन पर 95 जिसमें तकरीबन एक हजार बंदियों को रखने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि रेवाडी जेल में फिलहाल 65 बंदियों को रखने की ही व्यवस्था थी, जिसके चलते रेवाडी जिला के बंदियों को गुरुग्राम, नारनौल और झज्जर

दादरी के गांव भैरवी में बनेगी 1150 बंदियों की क्षमता जिला जेल: जेल मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने बताया कि चरखी दादरी जिला के गांव भैरवी में जेल परिसर निर्माण के

PUBLIC NOTICE

gated 19.12.2024, Document No. 15869. Further Seller has informed us that initially Mrs. Nirmala Roy and Mr. Ram Kishore Prasad Singh owned the said property vide allotment letter and Sale Deed dated 14.06.2004 was executed by M/s Rajishree Builders & Promoters Pvt. Ltd. And after unfortunate death of Mrs. Nirmal Roy on 28.04.2022, her shares have been devolved upon her legal heirs Mr. Ram Kishore Prasad Singh, Mr. Niraj Kumar and Mrs. Madhulika and out of them Mr. Ram Kishore

Prasad Singh, Mr. Niraj Kumar and Mrs. Madhulika and out of them Mr. Ram Kishore Prasad Singh and Mrs. Madhulika gifted their respective shares in favour of Mr. Niraj Kumar. Thus, Mr. Niraj Kumar has become the owner of the said property. The said owner has also informed that the said

property is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation

Any person including Bank/s, Financia nstitution/s. relative/s having any claim ight, title or any interest of any natur

Institution/s. relative/s having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the said property is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 07 days of publication of this notice and in the event of no response having been received to the notice, the title of the owner in respect of the said property shall be deemed to be clear of any charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our clients/Purchaser, in any manner whatsoever.

A-74, LGF, Defence Colony,

ending regarding the said property

जेल में भेजा जा रहा था।

लिए 97 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि मंजुर की गई है। 58 एकड जमीन में बनने वाले जेल कैंपस में 1150 बंदियों को रखने की क्षमता होगी। चरखी दादरी जेल में प्रशासनिक खंड, पुरुष बंदियों के लिए 7 बैरक, महिला बंदियों के लिए 1 बैरक, 2 सुरक्षा सैल, 30 बैड का जेल अस्पताल, किचन, गोदाम, नियंत्रण कक्ष, जेल फैक्ट्री, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा।

फतेहाबाद के बीघड में 99.97 करोड की लागत से बनेगी जेल: जेल मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने बताया कि फतेहाबाद के गांव बीघड में 45 एकड़ जमीन पर 99 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से जिला जेल का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि इस जेल कैंपस में 1852 बंदियों की क्षमता के मुताबिक कैंपस का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक पुरुष बंदियों के लिए 12 बैरक, महिला बंदियों के लिए एक नियंत्रण कक्ष. कैंटीन. बहुउद्देश्यीय हाल, वार्डर हॉस्टल, अधिकारी, कर्मचारियों के लिए 115 मकान व मूलभूत सुविधाओं के लिए ढांचागत विकास किए जाएंगे।

पंचकुला के जलोली में 86.17

करोड रुपए की लागत से बनेगी जेल: जेल मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने बताया कि पंचकुला के गांव जलोली में तकरीबन 31 एकड़ जमीन पर 86 करोड़ 17 लाख की लागत से जिला जेल का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि इस जेल कैंपस में 954 बंदियों की क्षमता के मुताबिक कैंपस का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक भवन, पुरुष बंदियों के लिए 4 बैरक, महिला बंदियों के लिए एक बैरक, विशेष सुरक्षा सेल 4, 30 बैड का जेल अस्पताल, जेल फैक्ट्री, नियंत्रण कक्ष, कैंटीन, लाइब्रेरी, बहुउद्देश्यीय हाल, वार्डर हॉस्टल, अधिकारी, कर्मचारियों के लिए 34 मकान व मूलभूत सुविधाओं के लिए ढांचागत विकास किए जाएंगे।

T.R. C. No. 121/2023

बिक्री उदघोषण एक्सिस बैंक बनाम उर्मिला थपलियाल

NCT of Delhi | 18.06.2025

कार्यालय वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण-।, दिल्ली

्रीय संस्थान की ऋण वसूती अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की क्रितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत विक्री की उड्घोषणा

सीडी1) - उर्मिला थपलियाल, ९९६, गली नं. २, राव मनसा राम स्कूल के पास, कापसहेडा, नई दिल्ली—110037, और: रॉयल संदरम एलायस, राइंडर हाउस, प्लॉट नं. 136, सेक्टर—44, गुरूग्र सीडी2) तरूण थपलियाल, ९९८, गली नं. २, राव मनसा राम रक्टल के पास, कापसहेडा, नई दिल्ली–110037 और: डॉयरेक्ट दूरदर्शन केंद्र, नई दिल्ली, प्रत्यक्ष दुरदर्शन भवन पर्निकस मार्ग, न

कॉसमॉस इंफ्रा इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड, ऋषि अपार्टमेंट, 4 बैटरी लेन, राजपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054, और 314 और 316, अंसल वैंबर्स – 11, भीकाजी का

जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण- । द्वारा वसुली प्रमाणपत्र सं 121/2023, औ.ए. नं. 691/2015 के द्वारा वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शरुआत से र

17,13,030,00 साथ में ओए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 23.10.2015 से 12.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मासिक दर के साथ वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार और वसूली प्रमाणपत्र के अनु लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदार की लागत का भूगतान भी करना होगा।

और जहाँ पर अधोहरताक्षर ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है और जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा रु. 17.13.030.00 साथ में ओए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 23.10.2015 से 12.00 प्रतिशत वर्षिक ब्याज. मासिक दर के साथ वसली प्रमाणपत्र के अनुसार औ

और जहाँ पर प्राचान कर कि सार र 17.15,050.00 राज र जाए वर महावारा था ताज जनात है। उद्योज र 12.00 राजिय नाम र जा बतुसी प्रमाणपत्र के अनुसार सारा और शुक्त सहित प्रमाणपत देनता के लागत का मृतान भी करना होगा। सुचित किया जाता है कि स्थान के किसी आदेश के आमान में सम्पत्ति के ई-नीलामी बेबसाईट : https://www.bankeauctions.com पर "ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से दिनांक 01.08.2025 को दोगहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक

भर्पाह 01.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा । ई—नीलामी हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण इस प्रकार है

सं.	सम्पात का विवरण	मूल्य	\$2.101			
1.	सम्पत्ति जिसका फ्लैट नं. 306, तृतीय तल, ब्लॉक नं. 23, पाम अपार्टमेंट, कॉस्मोस ग्रीन, भिवाड़ी, राजस्थान 1301019	रु. 1900 लाख	रु. 1.90 लाख			
इच्छूक बोलीदाताओं को धरोहर राशि डी डी 🗸 पे आर्डर के रूप में जो कि "Recovery Officer, DRT-1, Delhi-A/c.T.R.C No. 121/2023 के पक्ष में दिल्ली में देययोग्य हो						
स्व-प्र	माणित पहचान साक्ष्य (वोटर आई डी कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / पासपोर्ट) और पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति सहित, जि	समें पत्राचार	का पता अंकित			

हो, जो वसूली अधिकारी, डीआरटी- । दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 30.07.2025 को अर्पाह 05.00 बजे से पहले जमा कराना होगा। धरोहर राशि इसके श्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता / बैंक / वित्तीय संस्थान से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्ट्री, डीआरटी-।, दिल्ली से ईएमडी वापिस लेगा। धरोहर राशि वाले लिफाफे के उपर "T.R.C No. 121/2023" अंकित होना चाहिए और साथ में बोलीदाता का ई-मेल आई डी और मोबाईल न. भी अंकित होन

इच्छूक बोलीदाताओं को हमारे ई-नीलामी सर्विस प्रोवाईडर के पास पहले पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए यजर आई डी औ . गासवर्ड प्राप्त करना होगा और मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग विहार, फेज 2, बिल्डिंग नं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा (भारत) फोनः +9

7291981124/25/26, 9948182222, ई-मेल andhra@c1india.com, support@bankeauctions.com, वेबसाइट https://www.bankeauctions.com वे

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है। संबंधित बैंक अधिकारियों /हेल्पलाइन नं. आदि का विवरण निम्नानुसार हैं:

र्द-मेल और फोन नं नाम एवं पद

सुश्री पूना (उप प्रबंधक) ईमेलः poonm21@axisbank.com

जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे अधिकार हैं जिनके लिए प्रमाणपत्र देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेच जा चन जार को अपने दूर जीपनेत्र हैं आपने हैं हैं हैं हैं हैं कि स्वास रिवारिय कर रेपिय ने उपने हैं हैं हैं हैं जाएगा। उद्योगिया। में दशों ई गई सपतियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिकी ''<mark>जहां है जैसी है'' और ''जैसी है जैसी है''</mark> शत पर की जाएगी। इच्छूक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें और संपत्ति विवरण ऋण्मार आदि की पहचान और शुद्धता की जांच करें।

संपत्ति की बिक्री की तारीख से पहले संभावित बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है जिसके लिए बैंक के उपरोक्त नामित अधिकारी से संपर्क किया ज

यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने य

विक्री प्रारक्षित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे बोलीदाताओं को असफल बोली लगाने वाले की ईएमडी पहचान प्रमाण पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर—आईडी वैध झाइविंग लाइसेंस या सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर डीआरटी—। की रजिस्ट्री से प्राप्त होगी। असफल बोलीकर्ता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और, यदि उचित समय के मीतर प्राप्त नहीं होते हैं, तो तुस्त बसूली अधिकारी, डीआरटी—। दिल्ली/रजिस्ट्री, डीआरटी—1.

ादरला था वरु सं एथक कर। उपरोचन नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक र्निधारित किया गया है. वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्देष्ट है। सपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट विक्री हेतु रखा जाएगा, यदि सम्पत्ति भाग की विक्री को राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीतामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि विक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित कावा, व्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, व्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा

विकी से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिकी के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उद्योषणा के अनुसूची मे उहिलेखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी बुटी, गलत बयान अथवा उद्योषणा में चूक के होने पर मद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

नेविदा राशि जहाँ से बिंड राशि को बढ़ाया जाएगा रु. 50,000 / — (रु. पचास हजार केवल) निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट व लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।

ारहर गाराना के पुरंप पाबारा करने वा जाएना किसी भी लॉट के सर्वोच्च / प्रच्यातम बोलीवाता को क्रेता घोषित किया जाऐगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गर्य बोली आरक्षित मृत्यू से कृमू नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मृत्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।

सफलतम् / जन्मत बोलीदाता को बिक्री मुख्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण— I. दिल्ली, खाता T.R.C. No. 121/2023 के पक्ष मुँ बैंक ड्राएट / पे—ऑर्डर के द्वारा ऑन् लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के पृश्चात् यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए. ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।

व्यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सम्यति को बिक्री की नई उदघोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाऐगा। बिक्री के खर्चों के चूकाने के बाद बची रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जन्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्यति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद में बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगें।

सम्पत्तियों की अनुसूची विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है। अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति किसी भी प्रकार के सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व

सम्पत्ति जिसका फ्लैट नं. 306, तृतीय तल, ब्लॉक नं. 23

पाम अपार्टमेंट, कॉस्मोस ग्रीन, भिवाड़ी, राजस्थान 1301019 मेरे समक्ष दिनांक 03.06.2025 को मोहर किया गया

का विवर्ण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है।

कोई सूचना प्राप्त नहीं

भार का विवरण जिसके लिए

वसली अधिकारी-।। वसूली अधिकारी, डीआरटी-।, दिल्ली

Client Shri Dharam Pal Digwal son of Lat Nonram Dinwal resident of B-580 Sector-Avantika, Rohini, Delhi-110085, have severed relation with their son Manish Digwal and his wif Smt. Hemlata Digwal and Grand son Damode Anand Diowal and Grand daughter Durges Nandani due to their bad habits. My clients hav disowned and debarred their said son and his wife alongwith their childrens from all their movable and immovable properties. Anyon dealing with Manish Digwal and Hemlata Digwal will do so at his/her/their own risk and responsibility and my client will not be held responsible for any actions Deed or transaction carried out by Shri Manish Digwal and his wife

DEEPAK (ADVOCATE) H.O: K-62 Tis Hazar Court Delhi-110054, Mob. 9717124913

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक्सिस बैंक लिमिटेड जिसकी शाखा-प्रथम तल, हिमालय हाउस के जी. मार्ग, न दिल्ली—110001 में है, श्रीमती सौभाग्यवती (उधारकर्ता के पक्ष मूं नगरपालिका संख्या 18/2 वाली फ्रीहोल्ड बिल्ट—अ संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल लगभग 105 वर्ग गज है, किशन गंध रामा पार्क के पास. भगत सिंह रोड. दिल्ली-110007 में स्थित (जिसे आगे "**उक्त संपत्ति**" कहा जाएगा) के विरुद्ध ऋण् सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही है। उपलब्ध अभिलेखों व अनुसार, श्रीमती कमला रानी, पत्नी श्री शोरी लाल, दिनांव 1812.1965 के विक्रय विलेख के आधार पर उक्त संपत्ति के पंजीकृत मालिक थे, जो दस्तावेज संख्या 15266 के तहत पंजीकृत था, और उक्त संपत्ति को बाद में दिनांक 25.06.2007 के विक्रय वितेख के माध्यम से श्री किएत कुमार को बेचा गया था, जो दरतावेज संख्या ३६५४ के तहत पंजीकृत था। उक्त संपत्ति अब श्रीमृती सौभाग्यवती (उधारकृती) को बेची जानी है। यह सचित किया गया है कि उक्त संपत्ति से संबंधित मृत विक्रय विलेख एन.सी.आर./ एल.आर. संख्या 2908932/ 2025 के अनुसार खो गए हैं या गलत स्थान पर रख दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त मूल दस्तावेज हो या जिन्हे मिलें हों, उनसे अनुरोध है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सात (07) दिनों के भीतर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। ऐसा न होने पर, एक्सिस बैंक लिमिट्रेंड प्रस्तावित ऋण लेन्देन के साथ आगे बढेगा और इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी र्भ दावे, आपत्ति या देनदारियों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। **हिमांशु आहूजा (अधिवक्ता)** हिमांशु आहूजा (अधिवक्ता)

ई-मेल पताः alolegals@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

दि रोजमेरी अपार्टमेंट सी.जी.एच.एस. लि म. न. WZ - 551 A, टॉप फ्लोर, श्रीनगर, शकुर बस्ती, रानी बाग, दिल्ली-110034 DCS नियम 2007 के 19(2) के नियम व अनुसरण करते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता िक दि रोजमेरी अपार्टमेंट CGHS Ltd के निम् सदस्यों ने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। 1). देवेन्द्र गुप्ता (M.No.206) 2) कु. रजनी कुमा (M.No.161) 3). कु. मंजीत कौर (M.No.204 4). श्री आदित्य अग्रवाल (M.No.218) 5). कु. श्रुरि राय गुप्ता (M.No.219) 6). श्री नमन राय गुप्त (M.No.224) 7). अनन्ता वाली (M.No.230 8). श्री पवन कुमार शर्मा (M.No.123) और 9). कु. रूपाली दिवान (M.No.199)

यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त सदस्यों व सदस्यता त्यागने से संबध्ति कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रुप में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी (RCS) संसद मार्ग, नई दिल्ली अथवा सोसाइ आफिस म. न. WZ - 551A, टॉप फ्लोर, श्रीनग शक्र बस्ती, रानी बाग दिल्ली-110034 को इस नोटिस के छपने के 7 (सात) दिनों के भीतर दर्ज करायें। 🚮 President-Rosemary Apartment CGHS Ltd.

CHANGE OF NAME

I, Shobhit S/o Satish Chandra Srivastava R/o H-707, upertech Icon, Indirapuram, Ghaziabad have changed my name to Shobhit Srivastava for all future purposes. PD(2270)A

I, Shikha W/o Shobhit Srivastava R/o H-707, Supertech Icon, Indirapuram, Ghaziabad have changed my name to Shikha Srivastava for

all future purposes.

PD(2271)A I, POOJA RAO alias KAVITA RAO, D/o Sh. Mafat Lal Rao

residing at H.No. C-63/B, Near Durga Pur Mandir, Janta Garden, Pandav Nagar, Shamas Pur, Delhi-110091, have changed my name from POOJA RAO to KAVITA RAO and shall henceforth be known as KAVITA RAO for all

PD(2272)A New Delhi -110024 AXIS BANK LTD. तीसरी मॅजिल एमआइंडीसी, एराला ना लसन रोड ऐरोली नवी मुंबई-400708

और: एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, दूसरी मंजिल, ⊦14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसबे, जेपी प्रीन्स विश्टाउन, नोएडा (यूपी)-201301, कॉपीरेट कार्यालय: 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बोग्बे डाईग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंस बुधकर मार्ग, वर्ती, मुंबर्च-400025, पंजीकृत कार्यालय: त्रिशूल, तीसरी मंजिल, समर्थेच्यर मंदिर के सामने, ली गार्डन, एलिसक्रिज, अहमरावाबर-380006

(नियम 8(1)) (अचल सम्पत्ति हेतु) जबिक नीचे इस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आरितयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शतिक्यों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उचारकर्ताओं / सह-उचारकर्ताओं गारेटरों/बंधकर्कर्ताओं को मांग नीटिस जो प्राप्तिक की नीटिस में उल्लिखित उचारकर्ताओं को जन्त नीटिस की प्राप्ति को तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। उचारकर्ता/सह-उचारकर्ता/गारंटर/बंधकर्कर्ता और आम जनता को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का क्यार प्रस्तिकारी सह उचारकर्ता/पह-उचारकर्ता/प

ब्ता, उक्त नियमों के नियूम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित

प्रपाल का कल्या पालाबा है। वेशेष रूप से उपारकर्ता,/सह-उपारकर्ता,∕गारंटर,∕बंधककर्ता और आम जनता को संबंधित संपत्तियों से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्तियों से कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशियों के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड के उचारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपतियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धार 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

मांग सूचना की तिथि कब्जा की तिथि 25.11.2024 14.06.2025 मांग सूचना में राशि (ठ.) श्री अनुराग आनंद पुत्र श्री राजिन्द्र प्रसाद निवासी जै-1002, केडीपी, मैंड सवाना एनएच-58, राज नगर, गाजियाबाद, यूपी-201010, <u>और:</u> श्री अनुराग आनंद, पुत्र श्री राजिन्द्र प्रसाद, निवासी डब्ल्यूजेड-61/ए 15, पहली मंजिल, लेन नं. 17 वशिण्ड पार्क, दिल्ली-110046, <u>और:</u> श्री ਓ. 39,27,483 /

अनुराग आनंद, पुत्र श्री राजिन्द्र प्रसाद, निवासी फ्लैट नं. 706, टॉवर-1, टाइप-एच, 7वीं मंजिल, क्लासिक रेजीडेंसी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद यूपी-201801, 2. श्रीमती अरुणा आ पत्नी श्री अनुराग आनंद, निवासी जे-1002, केडीपी, ग्रांड सावना एनएच-58, राज नगर, गाजियाबाद, युपी-201010 <u>और:</u> श्रीमती अरुणा आनंद एली श्री अनुराग आनंद, निवासी डब्ल्युनेड-61/ए 15, प्रथम तल, तेन नं. 17, विशय्य पार्क, दिल्ली-110046, <u>और:</u> श्रीमती अरुणा आनंद पत्नी श्री अनुराग आनंद, निवासी फ्लैट नं. 706, टॉवर-1, टाइप-एच, 7वीं मंजिल, क्लासिक रेजीडेंसी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, यूपी-201801

अचल संपत्ति का विवरण- सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मित अपार्टमेंट नं. I-H1/706, 7वीं मंजिल बिल्डिंग/टॉवर-। में, जिसका सुपर एरिया 1<u>6</u>00 वर्ग फीट है, क्लासिक रेजीडेंसी के नाम से मशहूर आवासीय ग्रुप छाउसिं हॉम्प्लेक्स में गांव नर नगर, राज नगर एक्सटेंशन एनएच-58, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में थत, और नीचे दिए अनुसार सीमाएं: पूर्व-टाइटल डींड के अनुसार, दक्षिण-टाइटल डींड के अनुसार उत्तर-टाइटल डींड के ानुसार, पश्चिम - टाइटल डीड के अनुसार

उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को राशि चुकाने के लिए 30 दिनों क , अन्यथा बंधक संपत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाऐगा।

बैरक, विशेष सुरक्षा सेल 4, 30 बैड कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड

(सीआईएन L70109DL1980PLC169318) पंजीकत कार्यालयः प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नर्ड दिल्ली - 110002 मोबाइल नं. 7303495374, र्डमेल: camaccommercial@gmail.com वेबसाइटः www.camaccommercial.com

रिमोट ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि: , कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की 45वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार जुलाई 14, 2025 को सुबह 10:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") सुविधा के माध्यम से योजित की जाएगी. जो सामान्य और विशेष व्यवसायों को संचालित करने वे एजीएम के नोटिस में निर्धारित किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लाग प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 09 / 2024, दिनांक सितंबर 19, 2024 के साथ पठित और भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड ("संबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक अक्टबर 03, 2024 द्वारा जारी किया गया।

, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के संदर्भ में, एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सदस्यों को भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है. इसलिए कंपनी अपनी 45वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2024—25 की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पते पर भेज रही है, उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर www.camaccommercial.com और सीडीएसएल www.evotingindia.com और उन सदस्यों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे भौतिक और डिमेट रूप में शेयर, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें 07 जुलाई, 2025 को या उससे पहले ईमेल आईडी nichetechpl@nichetechpl.com पर नाम, फोलियो नंबर, शेयरों की संख्या, प्रमाणपत्र संख्या आदि निर्दिष्ट करते हुए अनुरोध पत्र भेजकर निचे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करना आवश्यक है।

07 जुलाई, 2025 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से सामान्य और विशेष व्यवसायों पर अपना वोट डाल सकते हैं जैसा कि सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की इलेक्टॉनिक बोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई—वोटिंग'') के माध्यम से 45वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किया गया है। सभी सदस्यों

को सचित किया जाता है कि: (i) 45वीं वार्षिक आन बैठक की सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

(ii) रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयः 10 जुलाई, 2025 (सुबह 9:00 बजे),

(iii) रिमोट ई—वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समयः 13 जुलाई, 2025 (शाम 5.00 बजे), (iv) 45वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि 07 जुलाई, 2025 है,

(v) दूरस्थ ई—मतदान और एजीएम में शामिल होने के विस्तृत अनुदेश एजीएम के नोटिस में दिए गए

(vi) कोई भी व्यक्ति, जो ईमेल द्वारा 45वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि 07 जुलाई, 2025 तक शेयर खता है, वह www.evotingindia.com या camaccommercial@gmail.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर (vii) माननीय सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि क) मतदान के लिए उपर्युक्त तारीख और समय के

बाद सीएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार नहीं दी जाएगी, (ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे, ग) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे, घ) एक व्यक्ति जिसका नाम केवल कट–ऑफ तारीख के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, दूरस्थ ई-वोटिंग, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा । (viii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे

अपना ईमेल पता पंजीकृत कराने के लिए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की हुई प्रति जिसमें नाम, फोलियो संख्या और पूरा पता हो, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति भेज सकते है तथा कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित स्कैन की हुई प्रति camaccommercial@gmail.com पर ईमेल की जा सकती है। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

ई-वोटिंग प्रणाली से रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (''एफएक्यू'') और ई—वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत संदर्भित कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी, पदनाम—वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, पताः ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई—400013 या helpdesk.evoting@cdslindia.com या टोल फ्री नं. 1800—21—09911 पर कॉल करें। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर स्थानांतरण पुस्तकें 08 जुलाई, 2025 से 14 जुलाई, 2025

स्थानः नई दिल्ली

कृते कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड दिनांकः 18 जून, 2025

हस्ता/-मनीषा सक्सेना कंपनी सचिव